

प्रेषक,

अर्जुन सिंह,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक, निबन्धन,
उत्तराखण्ड देहरादून।

वित्त अनुभाग-9

देहरादून: दिनांक 05 जनवरी, 2018

विषय:- स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग, उत्तराखण्ड हेतु वित्तीय वर्ष, 2017-18 के लिये प्रथम अनुपूरक बजट की वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या- 1362/3(150)/XXVII (1)/2017, दिनांक 27 दिसम्बर, 2017 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग, उत्तराखण्ड हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिये प्रथम अनुपूरक लेखानुदान में प्राविधानित धनराशि कुल ₹ 45,30,000/- (रूपये पैतालिस लाख तीस हजार मात्र) को पूर्व में निर्गत शासन के पत्र संख्या- 85/XXVII(9)/स्टाम्प-04/2017, दिनांक 05 अप्रैल, 2017 में उल्लिखित शर्तों के अधीन उक्त धनराशि को आपके निवर्तन पर रखे जाने हेतु अलोटमेंट आई डी- S1801070051 एवं S1801070052 दिनांक 03 जनवरी, 2018 की प्रति संलग्न कर श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

वित्त अनुभाग-1 के उक्त शासनादेश में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(अर्जुन सिंह)

अपर सचिव।

संख्या-03 (1)/2017/XXVII(9)/स्टाम्प-12/2014 तददिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार (ऑडिट), उत्तराखण्ड, नव निर्मित भवन, कौलागढ़, देहरादून।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड ओबराँय मोटर्स बिल्डिंग माजरा, देहरादून।
3. वित्त अधिकारी, साइबर ट्रेजरी, 23 लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
4. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
5. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
6. गार्ड फाईल।

(अर्जुन सिंह)

अपर सचिव।

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20172018

Secretary, Finance (S013)

आवंटन पत्र संख्या - 05/xxvii(9)/2018/12/2014

अनुदान संख्या - 007

अलोटमेंट आई डी - S1801070051

आवंटन पत्र दिनांक - 03-Jan-2018

HOD Name - Commissioner Tax (4753)

1: लेखा शीर्षक 2030 - स्टाम्प पंजीकरण 03 - पंजीकरण
001 - निदेशन तथा प्रशासन
03 - मुख्यालय
00 - --

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
01 - वेतन	4976000	2500000	7476000
02 - मजदूरी	1000	0	1000
03 - महंगाई भत्ता	299000	250000	549000
04 - यात्रा व्यय	25000	0	25000
05 - स्थानान्तरण यात्रा व्यय	50000	0	50000
06 - अन्य भत्ते	348000	330000	678000
07 - मानदेय	1000	0	1000
08 - कार्यालय व्यय	150000	50000	200000
09 - विद्युत देय	50000	0	50000
10 - जलकर / जल प्रभार	10000	0	10000
11 - लेखन सामग्री और फार्मों की छ	100000	0	100000
12 - कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	120000	0	120000
13 - टेलीफोन पर व्यय	75000	0	75000
15 - गारडियों का अनुरक्षण और पेद्र	300000	0	300000
16 - व्यावसायिक तथा विशेष सेवा	4000000	1200000	5200000
17 - किराया, उपशुल्क और कर-स्व	1000	0	1000
19 - विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन	100000	0	100000
23 - रात सेवा व्यय	1000	0	1000
26 - मशीनें और सज्जा / उपकरण औ	100000	0	100000
27 - चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	100000	0	100000
42 - अन्य व्यय	40000	0	40000
44 - प्रशिक्षण व्यय	50000	0	50000
45 - अवकाश यात्रा व्यय	50000	0	50000
46 - कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर	250000	0	250000
47 - कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी	200000	0	200000
	11397000	4330000	15727000

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes -

4330000

(चन्द्र प्रकाश)
03-1-2018
(चन्द्र प्रकाश)
अनुभाग अधिकारी
वित्त अनुभाग-0,
उत्तराखण्ड शासन।

(चन्द्र प्रकाश)
अनुभाग अधिकारी
वित्त अनुभाग-0,
उत्तराखण्ड शासन।

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20172018

Secretary, Finance (S013)

आवंटन पत्र संख्या - 05/xxvii(9)/2018/12/2014

अनुदान संख्या - 007

अलोटमेंट आई डी - S1801070052

आवंटन पत्र दिनांक - 03-Jan-2018

HOD Name - Commissioner Tax (4753)

1: लेखा शीर्षक 2030 - स्टाम्प पंजीकरण 03 - पंजीकरण
001 - निदेशन तथा प्रशासन
04 - जिला व्यय
00 - जिला व्यय

Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
01 - वेतन	52170000	0	52170000
02 - मजदूरी	1000	0	1000
03 - महंगाई भत्ता	3130000	0	3130000
04 - यात्रा व्यय	50000	0	50000
05 - स्थानान्तरण यात्रा व्यय	50000	0	50000
06 - अन्य भत्ते	3652000	0	3652000
07 - मानदेय	1000	0	1000
08 - कार्यालय व्यय	800000	0	800000
09 - विद्युत देय	1000000	200000	1200000
10 - जलकर / जल प्रभार	60000	0	60000
11 - लेखन सामग्री और फार्मों की छ	100000	0	100000
12 - कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	200000	0	200000
13 - टेलीफोन पर व्यय	200000	0	200000
15 - गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट	30000	0	30000
16 - व्यावसायिक तथा विशेष सेवा	5000000	0	5000000
17 - किराया, उपशल्क और कर-स्व	50000	0	50000
19 - विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन	1000	0	1000
25 - लघु निर्माण कार्य	100000	0	100000
26 - मशीनें और सज्जा / उपकरण औ	400000	0	400000
27 - चिकित्सा व्यय प्रतिप्रति	200000	0	200000
29 - अनुरक्षण	100000	0	100000
44 - प्रशिक्षण व्यय	50000	0	50000
45 - अवकाश यात्रा व्यय	50000	0	50000
46 - कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर	700000	0	700000
47 - कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी	4700000	0	4700000
	72795000	200000	72995000

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes -

200000

03-1-2018
(चन्द्र प्रकाश)
अनुभाग अधिकारी
वित्त अनुभाग-0,
प्रशासनिक शासन।

03-1-2018
अनुभाग अधिकारी
वित्त अनुभाग-0,
प्रशासनिक शासन।